



# WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED



MERCHANT BANKERS  
REG NO. INM000013077

12<sup>th</sup> September, 2024

To,  
The General Manager  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Sub: Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011**

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, we **Wealth Mine Networks Private Limited** (Manager to the Offer) are enclosing the Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) of SEBI(SAST) Regulations, 2011 on behalf of **Mr. Kunal H. Kothari ('Acquirer 1')**, **Mrs. Prachi ('Acquirer 2')** and **Mr. Tejas K. Rathod ('Acquirer 3')** (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers').

Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) of SEBI(SAST) Regulations, 2011 has been published in the following newspapers:

- **Financial Express- English (All Editions)**

(Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, Kochi, New Delhi, Hyderabad, Lucknow, Chennai, Pune)

- **Jansatta - Hindi**

(Kolkata, Chandigarh, New Delhi, Lucknow)

- **Pratahkal**

(Mumbai)

- **Hamara Swaraj**

(Indore)

We are requesting the shareholders and regulatory authorities to take the same on your record.

Thanking You,

**For Wealth Mine Networks Private Limited**

**Jay Trivedi**  
Managing Director  
DIN: 09834417



corporate@wealthminenetworks.com



www.wealthminenetworks.com



0288 - 266 1942

**Registered Office: 215-B Manek Center, P.N. Marg, Jamnagar, Gujarat 361001**

**Corporate Office: Office No: 822, 8th Floor, The Summit Business Bay, Behind Gurunanak Petrol Pump  
Andheri East, Nr. Western Express Highway, Mumbai, Maharashtra 400093**

CIN: U93000GJ1995PTC025328

# Domestic solar cell capacity likely to touch 35 GW by March 2025

ARUNIMA BHARADWAJ  
New Delhi, September 11

**SOLAR CELL CAPACITY** addition, which has so far been sluggish, is likely to grow significantly in the coming years with expected government policy measures.

The government, which recently proposed guidelines to include solar cells under the Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), is expecting the domestic capacity of solar cells to grow to 35 gigawatt (GW) by March 2025.

The ministry of new and renewable energy is also planning to finalise new rules detailing an ALMM for solar PV cells next month, renewable energy secretary Bhupinder Singh Bhalla told reporters on the sidelines of the second edition of the International Conference on Green Hydrogen.

"There is going to be significant capacity addition in the coming months. We expect 35 GW capacity by March 2025, which is way earlier than the



Union ministers Pralhad Joshi and Hardeep Singh Puri inaugurate the second edition of the International Conference on Green Hydrogen in New Delhi on Wednesday

implementation date of April 1, 2026 for ALMM order (for solar cells)," Bhalla said.

ALMM is a list of the models and manufacturers from which solar project developers can buy required equipment from. At present, ALMM has been imposed for solar modules to encourage local manu-

facturing. "With installed capacity of solar PV cells in the country expected to increase substantially in the next two years, it has been proposed to issue List-II of solar PV cells under ALMM, which shall be effective from 01.04.2026," the ministry had said in its notification.

In the calendar year 2023, the country added 20.8 GW of solar module manufacturing capacity and 3.2 GW of solar cell capacity, according to a recent report by Mercom India Research. The country's cumulative module manufacturing capacity as of December 2023

stands at 64.5 GW. Solar cell manufacturing capacity reached 5.8 GW till December 2023. The report forecasts India's module manufacturing capacity to exceed 150 GW by 2026 and that of solar cells to reach 75 GW.

Talking about the green hydrogen initiatives in the country, the secretary informed that the projects with a combined capacity of 7.5 million tonne per annum have been announced against the target of 5 million tonne per annum by 2030 under the national green hydrogen mission.

Since its last edition of the conference, the country has awarded approximately 3,000 megawatt (MW) of electrolyser manufacturing capacity and 412,000 tonne per annum capacity for green hydrogen production, the government said. It has also issued tenders for 450,000 tonne per annum of green hydrogen capacity and 739,000 tonne per annum of green ammonia production.

that equation is about to change. As our domestic players ramp up, supported by the right policy framework and investments in innovation, we'll see costs taper down, enabling us to compete head-to-head with global suppliers," said Amit Paithankar, CEO, Waaree Energies Ltd.

China, the leading supplier of solar cells, benefits from economies of scale and the huge subsidies provided by the government to the solar industry, which allows them to offer better prices and creates a virtual monopoly, experts say.

"For solar panel manufacturers, this creates a challenge in maintaining competitive pricing for our panels if we are restricted to sourcing cells domestically. If domestic production can improve both in terms of scale and cost efficiency, this could change in the future, but at present, a mandatory shift to local sourcing could hurt both the profitability of local module manufacturing and project timelines," Mohanka said.

Even as the industry sees the move as a step in the right direction, implementation at the ground level will remain a monitorable. "It will be important to regularly monitor the actual implementation of solar cell manufacturing capacities in the country to avoid any availability and/or pricing-related issues for projects mandated to use cells from the ALMM list in the future," said Anujesh Dwivedi, Partner, Deloitte India.

# Anti-subsidy tariff on steel pipes extended

RAVI DUTTA MISHRA  
New Delhi, September 11

**THE MINISTRY OF Finance** has extended the anti-subsidy duty on imports of "welded steel pipes and tubes" from China and Vietnam for five years, citing injury to the domestic industry, according to a notification issued late on Tuesday.

The duty was initially imposed in September 2019.

This follows a recommendation from the Directorate General of Trade Remedies (DGTR), under the Ministry of Commerce, to continue the countervailing duty.

The DGTR—a quasi-judicial body that independently undertakes investigations before making its recommendations to the Centre on administering trade remedial measures including anti-dumping, countervailing duties and safeguard measures—had said that the additional production capacity of Chinese manufacturers is likely to be utilised for exporting these goods to India.

Steel and steel product



A report by Crisil highlighted that India became a net importer of steel in FY24, with an overall steel trade deficit of 1.1 million tonnes, signalling a shift from its previous position as a net exporter since fiscal 2017. While China, South Korea, and Japan remain the top exporters, Vietnam has now emerged as a new entrant on the list.

The Economic Survey had earlier noted that the recent increase in global trade through Mexico and Vietnam is the result of Chinese firms re-routing their supply chains through these countries. The survey also pointed out that China dominates the supply of several critical minerals used in manufacturing, making it difficult to decouple from China.

Meanwhile, India's imports from China continue to rise. Imports from China have already surpassed \$60 billion in the first seven months of 2024, a 10 per cent increase compared to the \$55 billion recorded during the same period last year. In FY24, imports from China exceeded \$100 billion.

# Govt clears purchase of soybean at MSP in MP

SANDIP DAS  
New Delhi, September 11

**WITH MANDI PRICES** of soybean, a key kharif oilseed, ruling below the minimum support price (MSP) of ₹4,892/tonne, government agencies Nafed and National Cooperative Consumers' Federation of India (NCCF) will purchase soybean from farmers at the MSP in Madhya Pradesh, the biggest producer of the oilseed variety in the country.

The agriculture ministry on Wednesday approved procurement of 1.36 million tonne (MT) of oilseed at MSP under the price support scheme (PSS) in Madhya Pradesh. Last week the Centre had approved purchase of 1.56 MT of soybean in Maharashtra (1.3 MT), Karnataka (0.1 MT) and Telangana (0.05 MT).

The agencies would commence procurement in key producing states soon. Agriculture minister Shivraj Singh Chouhan said that recently the farmers of Madhya Pradesh were worried as soybean was being sold at prices lower than MSP. Trade estimates showed Madhya Pradesh and Maharashtra last year had 44% and 40% share respectively in the total soybean output. Sources said that robust crop prospects and cheaper imports of edible oil due to low tariff have impacted mandi modal prices of soybean, currently ruling at around ₹4,376/quintal, around 10% below the MSP.

# Industry seeks to extend deadline for approved list for solar cell units

ARUNIMA BHARADWAJ  
New Delhi, September 11

**THE GOVERNMENT'S DECISION** to include solar cells under the ambit of Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) is intended to provide a push to domestic manufacturing while reducing the dependency on imports. However, the industry believes an extension of the time-line beyond April 2026 would help the units scale up capacities, enabling them to achieve the targets.

"The solar industry supports the push for domestic manufacturing but believes the proposed April 1, 2026 implementation date may be too soon. We suggest extending the timeline to December 31, 2027 to allow solar cell manufacturers to scale up and new players to enter the market," said Gautam Mohanka, CEO, Gautam Solar.

The ministry of new and renewable energy has released draft amendments to the ALMM order for implementation of ALMM for solar PV cells proposing to issue List-II of solar PV cells which shall be effective from April 1, 2026.

The ALMM order released by the ministry back in 2019 had provision for List-I, specifying models and manufacturers of solar PV modules. List-II of solar PV cells has not been issued due to installed capacity of solar PV cells in the country being lower than the demand.

"With installed capacity of solar PV cells in the country expected to increase substantially in the next two years, it has



been proposed to issue List-II of solar PV cells under ALMM, which shall be effective from 01.04.2026," the ministry said in its notification. The domestic industry is booming and the capacity additions are expected to grow in the near term, experts and industry players say.

"This was originally envisaged in 2019, but has been delayed for various reasons, and is crucial to enhance India's domestic capabilities beyond the assembly of PV modules," said Sujoy Ghosh, vice president & country managing director - India, First Solar. He said that India has the potential to counter China's strategic dominance of global solar value chains, and it cannot achieve this potential by relying on Chinese supply chains for critical components such as cells.

"A gradual transition would ensure that the industry can make a smooth transition from depending solely on Chinese

solar cells and mitigate the potential supply bottlenecks and cost escalations, ensuring that project commissioning timelines and India's net-zero targets remain on track," Mohanka said. The country's solar cell manufacturing capacity has grown in recent years, with the current annual capacity reaching 5.8 GW as of December 2023. The industry expects domestic cell capacity to increase to over 75 GW by 2026.

Mohanka noted the current capacity is insufficient for the scale needed to meet growing solar deployment targets and the gap between cell and module production (64.5 GW as of December 2023 and projected to surpass 150 GW by 2026) indicates that much more investments are needed.

India accounts for over 50% of the cell exports from China.

"While it's true that imported cells have had a cost advantage due to sheer scale,

that equation is about to change. As our domestic players ramp up, supported by the right policy framework and investments in innovation, we'll see costs taper down, enabling us to compete head-to-head with global suppliers," said Amit Paithankar, CEO, Waaree Energies Ltd.

China, the leading supplier of solar cells, benefits from economies of scale and the huge subsidies provided by the government to the solar industry, which allows them to offer better prices and creates a virtual monopoly, experts say.

"For solar panel manufacturers, this creates a challenge in maintaining competitive pricing for our panels if we are restricted to sourcing cells domestically. If domestic production can improve both in terms of scale and cost efficiency, this could change in the future, but at present, a mandatory shift to local sourcing could hurt both the profitability of local module manufacturing and project timelines," Mohanka said.

Even as the industry sees the move as a step in the right direction, implementation at the ground level will remain a monitorable.

"It will be important to regularly monitor the actual implementation of solar cell manufacturing capacities in the country to avoid any availability and/or pricing-related issues for projects mandated to use cells from the ALMM list in the future," said Anujesh Dwivedi, Partner, Deloitte India.

# Delhi airport climbs to 24th in megahub rankings

ENS ECONOMIC BUREAU  
New Delhi, September 11

**DELHI'S INDIRA GANDHI** International Airport (IGIA) has been ranked among the top 25 "megahub" airports globally by international aviation data and analytics firm OAG. IGIA has improved its position to the 24th spot from last year's 25th in OAG's latest list of megahub airports—those with the highest ratio of possible scheduled international connections to the number of destinations served.

The only other Indian airport among the top 50 megahub airports—Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International

Airport (CSMIA)—however dropped 10 spots from last year to the 44th position.

However, both Delhi and Mumbai airports are ranked much higher in the OAG's list of the top megahub airports for low-cost carrier (LCC) operations, thanks to India's largest airline IndiGo—also counted among the top LCCs globally—using the two airports as its major hubs.

In this category, the Delhi airport has been ranked fifth, a spot higher from last year, while the Mumbai airport has retained its 11th rank.

London Heathrow, Kuala Lumpur International Airport,

Tokyo-Haneda, Amsterdam Airport Schiphol, and Seoul's Incheon Airport—in that order—have been ranked as the global top five megahub airports by OAG.

Kuala Lumpur International Airport has been ranked as the top LCC megahub airport globally, followed by Manila Ninoy Aquino International Airport, Incheon Airport, and Singapore Changi Airport.

IndiGo has a share of 39 per cent in all flights at the Delhi airport, and 41 per cent at the Mumbai airport, per OAG data. The Delhi airport's total LCC connections stand at 11,099 over 156 destinations.

# Making effort to save small retailers: Goyal

FE BUREAU  
New Delhi, September 11

**DAYS AFTER RAISING** concern about the impact of e-commerce and its business practices on traditional retail, commerce and industry minister Piyush Goyal said on Wednesday that the government is trying to protect small businesses as they face intensified competition from well-funded online platforms.

"We are trying to meet the aspiration of 100 million small retailers. Small mom-and-pop stores have disappeared from the US landscape, but we are making an effort to protect them to some extent. We have to meet the aspirations of every single Indian," the minister said at the 49th annual general meeting of the US-India Business Council.

He also said India will continue to work with the US to meet the aspirations of 1.4 billion Indians for a better quality of life and a better future as well as the needs of 140 million farmers and their families and a better future for their children.

The minister pointed to the "common source of concern" for both the US and India in critical minerals and stressed on self-reliance in the sector.

"Let us work towards critical minerals which is an important part of our partnership to have a resilient supply chain. We have a lot to offer and you have a lot to offer."

Traditional retail has been flagging the threat from e-commerce for several years. Now with the greater visibility

of quick commerce, off-line retail has now pointed to the threat posed by it to small neighbourhood stores. Goyal also said that the US-India CEO forum will meet on October 2-3 in Washington to further their commercial dialogue.

The minister had last month stated that e-commerce companies are eating into the small retailers' high-value, high-margin products that are the only items through which the mom-and-pop stores survive.

# Govt launches digital platform to ease exports


MUKESH JAGOTA  
New Delhi, September 11

**THE MINISTRY OF** commerce and industry on Wednesday launched an online platform that pools in information on foreign trade from diverse sources to guide the existing and aspiring exporters on the opportunities available in the international market and how to capture them.

The 'Trade Connect e-Platform' serves as a one-stop solution, providing exporters with near real-time access to critical trade-related information, while seamlessly connecting them to key government entities such as Indian missions abroad, the department of commerce, and export promotion councils.

Right from answering queries on global demand of a product and country-wise trade information, the platform will guide exporters on international standards, market access conditions, compliance requirements and forge connections with international buyers.

"The portal will be updated regularly and stake-



The portal will be updated regularly and stakeholders' feedback will help in launching its second version in 2025, Goyal said

holders' feedback will help in launching its second version in 2025," commerce and industry minister Piyush Goyal said after launching the platform.

"The global trade is in a paralytic situation but this is our effort to increase India's market share in the world," he said, adding that the platform will be available in other official languages too in future.

The platform will connect

more than 6 Lakh IEC (import-export code) holders, over 180 Indian Mission officials, over 600 Export Promotion Council Officials, besides the officials from DGFT, department of commerce and banks.

In the second phase more services like banking, insurance and logistics will be added on to the platform, Director General of Foreign Trade (DGFT) Santosh Sarangi said.

The platform has been developed in collaboration with the Ministry of MSME, EXIM Bank, TCS, Department of Financial Services (DFS), and the Ministry of External Affairs (MEA).

Whether a seasoned exporter or a new entrant, the platform is designed to assist businesses at every stage of their export journey, DGFT said.

"It will be a ChatGPT for exporters. We want entrepreneurs to grow in trade business. Unless and until we have entrepreneurs, the dream of \$ 2 trillion exports of goods and services (by 2030) will be difficult to achieve," commerce secretary Sunil Barthwal said.

Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

## LUCENT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74110MP2010PLC023011  
Registered Office: Second Floor, 448-D, Scheme No. 51, Sangam Nagar, Indore, Madhya Pradesh, 452006  
Tel. No.: 8200927566 | E-Mail ID: sylphedu@gmail.com | Website: www.lucentindustries.life

**Open Offer for Acquisition of 39,00,000 Equity Shares from Shareholders of Lucent Industries Limited by Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3).**

This Post Offer Advertisement is being issued by Wealth Mine Networks Private Limited, on behalf of Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers'), in connection with the offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on 17<sup>th</sup> May, 2024 in the Financial Express- English (All Editions), Jansatta - Hindi, Pratibha and Hamara Swaraj newspapers.

Sr. No.	Particulars	Details	
1	Name of the Target Company:	Lucent Industries Limited	
2	Name of the Acquirer(s) and PAC	Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers')	
3	Name of the Manager to the Offer:	Wealth Mine Networks Private Limited	
4	Name of the Registrar to the Offer:	Satellite Corporate Services Private Limited	
<b>Offer Details:</b>			
5	a. Date of Opening of the Offer:	22 <sup>nd</sup> August, 2024	
	b. Date of Closure of the Offer:	04 <sup>th</sup> September, 2024	
6	Date of Payment of Consideration:	Not Applicable as non the shareholders of the Target Company has tendered their shares	
<b>Details of Acquisition</b>			
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	18.25/-	18.25/-
7.2	Aggregate number of shares tendered	0	0
7.3	Aggregate number of shares accepted	0	0
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	₹ 7,11,75,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)	₹ 7,11,75,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public announcement (No. & %)	NIL	NIL
7.6	Shares Acquired by way of Agreements • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	0 0	0 0
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	0 0 0	0 0 0
7.9	Post offer shareholding of Acquirer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%

8. The Acquirer along with its Directors and PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the Target Company.

**Issued by:**  
WEALTH MINE Networks Pvt. Ltd. | WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED (CIN: U93000GJ1995PTC025328)  
Registered Office: 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jamnagar, Gujarat-361001,  
Contact Person: Mr. JAY TRIVEDI  
Tel No.: + 7778867143 | Email: wealthminenetnetworks@gmail.com  
Investor Grievance ID: wealthminenetnetworks@gmail.com  
SEBI Reg. No.: INM000013077

**On behalf of:**

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Kunal Kothari Acquire-1	Ms. Prachi Acquire-2	Tejas K. Rathod Acquire-3

Place: Mumbai  
Date: 10/09/2024

## उत्तर रेलवे

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक कार्यालय

प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली - 110001

Mail ID : salenr365@gmail.com

संख्या : 117-एस/सेल/ऑक्शन प्रोग्राम/2024-25

दिनांक : 06.09.2024

## नीलामी सूचना सं०- दिसंबर/24

रद्द लोहा, अलौह, अन्य विविध स्क्रैप, कन्डम लोको कोचेज तथा वैगन्स, स्क्रैप रेल एवं अन्य रेल पथ सामग्री के निस्तारण हेतु ई-नीलामी की जायेगी। लैड एसिड बैटरीज/यूज ऑयल/रियूज ऑयल केवल उन्हीं सम्भारणकर्ताओं को बिक्री किया जायेगा जो कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन पंजीकृत होंगे।

## दिसंबर 2024 की ई-नीलामी

सं०-नीलामी करने वाला डिपो/डिबीजन	नीलामी समय	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठ चरण
1 आलमबाग/लखनऊ 0522-2451257	10:00 पूर्वाह्न	5	7	11	14	21	31
2 शकुलबस्ती 011-27015387	10:00 पूर्वाह्न	5	7	11	14	21	31
3 जगाधरी 01732-252388	10:00 पूर्वाह्न	5	7	12	16	21	31
4 वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/लखनऊ 0522-2234756	10:00 पूर्वाह्न	4	9	13	20	24	31
5 वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/फिरोजपुर 01632-244154	10:00 पूर्वाह्न	4	9	13	19	23	31
6 वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/अम्बाला 0171-2611203	10:00 पूर्वाह्न	4	9	12	17	24	31
7 वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/मुरादाबाद 0591-2413141	10:00 पूर्वाह्न	3	6	10	16	26	31
8 वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/दिल्ली 011-23365311	10:00 पूर्वाह्न	3	6	10	16	23	31

नोट: नीलामी में बेचे जाने वाले सामग्री का विवरण [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर दिये कैंटलॉग पर उपलब्ध होंगे।

- इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामग्री को नीलामी के पूर्व नामित स्थान पर कार्य दिवस में देख सकते हैं।
- पूर्व नीलामी में बेचे गये सामग्री का विवरण [www.nr.railnet.gov.in](http://www.nr.railnet.gov.in) पर उपलब्ध है।
- ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, क्रेता को [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य नियम व शर्तों के लिए कृपया रेलवे वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) देखें।

(नरेंद्र सिंह)

2839/2024 उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/एस एवं पी



**Modern Engineering and Projects Limited**  
Shaping the Road Ahead

## MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED

Modern Engineering and Projects Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated as Singtom Tea Co. (1946) Limited under the Companies Act, 1913 at Calcutta on February 26, 1946. The name was changed to Modern Convertors Limited on May 18, 1976 vide a fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was once again changed to its current name Modern Engineering and Projects Limited on December 03, 2021 vide a fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Our Registered Office has been shifted from the state of West Bengal to Maharashtra vide the Order of the Regional Director dated December 17, 2021 which was registered with Registrar of Companies, Mumbai vide Certificate of Registration of Regional Director Order for change of State dated April 28, 2022. For details of changes in the name and in the registered office of our Company, refer chapter titled "General Information" on page 36 of the Letter of Offer.

Registered Office: 103/4, Plot 215, Free Press House, FL-10 Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021, Maharashtra ; Tel: +91 66666007 Fax: N.A.  
Contact Person: Sanjay Jha, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: [cs@nep.ltd](mailto:cs@nep.ltd); Website: [www.nep.ltd](http://www.nep.ltd)  
Corporate Identification Number: L01132MH1946PLC381640

**OUR PROMOTERS: JASHANDEEP SINGH, VAISHALI S MULAY, SHASHIKANT BHOGHE AND JETRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED**

ISSUE OF UP TO 1,23,60,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹40 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹494.40 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF FOUR(4) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, AUGUST 26, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 178 OF THIS LETTER OF OFFER.

\*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

Issue Programme:

### NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

#### RIGHTS ISSUE OPEN

Last date for receipt of Rights Issue Application forms is extended up to **Friday, September 20, 2024**

Last date for on Market Renunciation extended up to **Tuesday, September 17, 2024**

<b>ASBA*</b>	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section
--------------	--	--

PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 179 of the Letter of Offer.

Kindly note that Non-Resident Investors can apply in this issue using the ASBA mode only.

Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 183 of the Letter of Offer.

**LAST DATE FOR APPLICATION:** This is to inform the Eligible shareholders of the Company that the date of Closure of the Rights Issue which opened on Thursday, September 05, 2024 and was scheduled to close on Tuesday, September 17, 2024 has now been extended by the Company to Friday, March 20, 2024 and the last date for on market renunciation has now been extended to Tuesday, September 17, 2024 by the Rights Issue Committee of the Board of Directors in its Meeting held on September 10, 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise the rights in the Rights Issue.

Accordingly, Last date of submission of the duly filled Rights Issue Application forms is extended upto Friday, September 20, 2024 (i.e. Issue Closing Date).

**PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.**

Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date i.e. September 20, 2024 or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Terms of the Issue-Basis of Allotment" on page 198 of the Letter of Offer.

**ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS FRIDAY SEPTEMBER 20, 2024. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT IN THE MODIFICATION OF THE LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION AND THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.**

Registrar to the Issue	Company Secretary and Compliance Officer
 <b>Purva Share Registry (I) Private Limited</b> Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai, 400011, Maharashtra Contact Details: +91-22-4961 4132/+91-22-3199 8810 Email: <a href="mailto:newissue@purvashare.com">newissue@purvashare.com</a> Website: <a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a> Contact Person: Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number: INR000001112	 <b>MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED</b> Registered Office: 103/4, Plot 215, Free Press House, FL-10 Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021, Maharashtra Tel: +91 66666007 Fax: N.A. E-mail: <a href="mailto:cs@nep.ltd">cs@nep.ltd</a> Website: <a href="http://www.nep.ltd">www.nep.ltd</a>

For MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED  
On behalf of the Board of Directors

Sd/-  
Sitaram Dhulipala  
Managing Director  
DIN : 03408989

Place: Mumbai  
Date: September 11, 2024

Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

## LUCENT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74110MP2010PLC023011

Registered Office: Second Floor, 448-D, Scheme No. 51, Sangam Nagar, Indore, Madhya Pradesh, 452006  
Tel. No: 8200927566 | E-Mail ID: [sylphedu@gmail.com](mailto:sylphedu@gmail.com) | Website: [www.lucidentindustries.life](http://www.lucidentindustries.life)

Open Offer for Acquisition of 39,00,000 Equity Shares from Shareholders of Lucent Industries Limited by Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3).

This Post Offer Advertisement is being issued by Wealth Mine Networks Private Limited, on behalf of Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), in connection with the offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on 17<sup>th</sup> May, 2024 in the Financial Express-English (All Editions), Jansatta -Hindi, Pratibha and Hamara Swaraj newspapers.

Sr. No.	Particulars	Details
1	Name of the Target Company:	Lucent Industries Limited
2	Name of the Acquirer(s) and PAC	Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as Acquirers)
3	Name of the Manager to the Offer:	Wealth Mine Networks Private Limited
4	Name of the Registrar to the Offer:	Satellite Corporate Services Private Limited
5	Offer Details:	
	a. Date of Opening of the Offer:	22 <sup>nd</sup> August, 2024
	b. Date of Closure of the Offer:	04 <sup>th</sup> September, 2024
6	Date of Payment of Consideration:	Not Applicable as non the shareholders of the Target Company has tendered their shares

7. Details of Acquisition			
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	18.25/-	18.25/-
7.2	Aggregate number of shares tendered	0	0
7.3	Aggregate number of shares accepted	0	0
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	₹ 7,11,75,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)	₹ 7,11,75,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public announcement (No. & %)	NIL	NIL
7.6	Shares Acquired by way of Agreements • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	0 0	0 0
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	0 - 0	0 - 0
7.9	Post offer shareholding of Acquirer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 1,01,41,560 • 67.61%	• 1,01,41,560 • 67.61%

8. The Acquirer along with its Directors and PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the Target Company.

Issued by:



**WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED (CIN: U93000GJ1995PTC025328)**  
Registered Office: 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jamnagar, Gujarat-361001,  
Contact Person: Mr. JAY TRIVEDI  
Tel No.: + 7778867143 | Email: [wealthminenetworks@gmail.com](mailto:wealthminenetworks@gmail.com)  
Investor Grievance ID: [wealthminenetworks@gmail.com](mailto:wealthminenetworks@gmail.com)  
SEBI Reg. No.: INM000013077

On behalf of:

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Kunal Kothari Acquire-1	Ms. Prachi Acquire-2	Tejas K. Rathod Acquire-3

Place: Mumbai

Date: 10/09/2024

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), झांसी थाना- प्रेमनगर  
घराना-14 सिविलरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनैन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्सेमेंट  
सिविलरिटाई इन्स्ट्रुट एक्ट 2002

कोर्ट के महिन्द्रा बैंक लिए बनाम श्री जिया उल हसन खान आदि

उपरोक्त वाद में केन कोर्ट के महिन्द्रा बैंक लि० रजि० ऑफिस, 7 फ्लोर, प्लॉट नं० 7, सेक्टर 125, नोयडा (उ०एन) द्वारा घारा 14 सिविलरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनैन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्सेमेंट सिविलरिटाई इन्स्ट्रुट एक्ट 2002 के द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि बैंक द्वारा विधेकी की बैंक संपत्तियों पर कब्जा दिवाये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2024 नियत की गयी है।  
श्री मान जी उपरोक्त वाद में कोर्ट के महिन्द्रा बैंक शाखा रजि० ऑफिस, 7 फ्लोर, प्लॉट नं० 7, सेक्टर 125, नोयडा (उ०एन) बनाम श्री जिया उल हसन खान आदि गजट प्रकाशनों हेतु।  
1-श्री जियाउल हसन खान, निवासी- 444/2, सर सैयद नगर, थाना प्रेमनगर, सिलवट गंज नगर झांसी।  
2-मैसर्स जिड्स द्वारा प्रो० श्री जियाउल हसन खान,  
3-श्रीमती नसर खान प्रवी श्री जितेंद्र सिंह विवाहीण मकान नं० 10-444/2 पुराना, 790 पुराना, गाँव नं० 406 बरस रूर नगर, थाना प्रेमनगर झांसी।  
अतः आपको दखत द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको उक्त वाद में कोई तथ्य प्रस्तुत करना हो तो न्यायालय में दिनांक 19.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार वाद का निस्तारण एकपक्षीय रूप से कर दिया जायेगा।  
दिनांक अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) झांसी

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), झांसी थाना- प्रेमनगर  
घराना-14 सिविलरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनैन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्सेमेंट  
सिविलरिटाई इन्स्ट्रुट एक्ट 2002, जिला झांसी

कोर्ट के महिन्द्रा बैंक लिए बनाम मैसर्स मोन्टी ट्रेडिंग कम्पनी आदि

उपरोक्त वाद में केन कोर्ट के महिन्द्रा बैंक लि० रजि० ऑफिस, 7 फ्लोर, प्लॉट नं० 7, सेक्टर 125, नोयडा (उ०एन) द्वारा घारा 14 सिविलरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनैन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्सेमेंट सिविलरिटाई इन्स्ट्रुट एक्ट 2002 के द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि बैंक द्वारा विधेकी की बैंक संपत्तियों पर कब्जा दिवाये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2024 नियत की गयी है।  
श्री मान जी उपरोक्त वाद में कोर्ट के महिन्द्रा बैंक शाखा रजि० ऑफिस, 7 फ्लोर, प्लॉट नं० 7, सेक्टर 125, नोयडा (उ०एन) बनाम मैसर्स मोन्टी ट्रेडिंग कम्पनी आदि गजट प्रकाशनों हेतु।  
1-मैसर्स मोन्टी ट्रेडिंग कम्पनी (प्रो० श्री सतीश कुमार)  
2-श्री सतीश कुमार,  
3-श्री राम स्वर्ण  
पता: मकान नं० 519, नैनगढ़ नगर, अजोदना, थाना प्रेमनगर, जिला झांसी।  
अतः आपको दखत द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको उक्त वाद में कोई तथ्य प्रस्तुत करना हो तो न्यायालय में दिनांक 19.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार वाद का निस्तारण एकपक्षीय रूप से कर दिया जायेगा।  
दिनांक अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) झांसी

### कार्यालय ग्रा.पं. सिमरिया, वि.खं. बदरौल, शाहजहांपुर

#### अति अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिमरिया, विकास खण्ड बदरौल, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा कार्य योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री ईट, मौरंग, बजरी, सरिया, सीमेन्ट, रोड़ी, रेत, टाइल्स, पंगल, पाइप, इण्टरलॉकिंग ईट व टाइल्स आदि की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 18.09.2024 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 19.09.2024 को 4 बजे खोली जायेगी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनु. लागत	योजना का नाम	अभ्युक्ति
1	मंजूर के मकान से आर.आर. सी. रोड तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। लम्बाई-40 मी., चौड़ाई-4 मी.	1,99,151 लाख	मनरेगा कार्य योजना	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

श्रीमती तारावती यादव, ग्राम प्रधान संजय कुमार, सचिव

#### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गुडरियर इडिया लिमिटेड जिसका CIN: L25111HR1961PLC008578 है तथा पंजीकृत कार्यालय मधुवा रोड, बल्लभगढ़, जिला फरिदाबाद (हरियाणा) में है, का शेयर प्रमाणपत्र जो सदस्य नाम सावित्रि देवी सुब्बा जेटी नाम-1: श्री भारत भूषण सुब्बा के नाम में धारित है जिसका फोलियो नं० 0073146, कुल शेयरों की सं० 500 है।

विलिप्त सं	शेयरों की सं.	विलिप्त सं.	शेयरों की सं.
2004557-2004564	8	6898537-6898574	38
2178707-2178711	5	6954283-6954320	38
2227243-2227262	20	6954472-6954571	100
2415391-2415428	38	7050603-7050608	6
2594183-2594186	4	7067801-7067900	100
2627194-2627195	2	7072172-7072217	46
2627210-2627210	1	7362877-7362886	10
4529115-4529119	5	7481257-7481257	1
4547181-4547185	5	12198261-12198268	8
4682814-4682839	26	12316673-12316673	1
4697810-4697813	4	13223489-13223496	8
5171589-5171594	6	13652994-13652995	2
5397311-5397318	8	13720100-13720105	6
5411505-5411508	4		

के गुण होने अथवा स्थानान्तरण होने अथवा चोरी हो जाने की सूचना मिली है तथा उक्त कम्पनी में उसकी जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध दखित किया गया है। सर्व-सामाज्य को सूचित किया जाता है कि यदि इस सूचना के 15 दिनों के भीतर उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करेगी जिसके बाद उक्त डूरा क्रिती भी दवे का विचार नहीं किया जायेगा। हस्ता./-

### शाखा के पते में बदलाव के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट) के ग्राहकों के ध्यान में यह लाया जाता है कि निम्नलिखित शाखाओं का पता बदल दिया गया है। वर्तमान में शाखा में रखे गए सभी खाते/लेनदेन वही रहेंगे। परिवर्तन की प्रभावी तिथि के साथ विभिन्न स्थानों के पुराने और नए पते का विवरण अनुलग्नक-ए के रूप में नोटिस के साथ संलग्न है। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने लेन-देन के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें/नए स्थान पर जाएं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें या संबंधित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों से संपर्क करें। शाखा प्रबंधकों के संपर्क नंबर इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक-ए में दिए गए हैं।  
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट)

"अनुलग्नक-ए"									
शाखा कोड	शाखा का नाम	राज्य	पते में बदलाव के लिए प्रभावी तिथ						



## उषा ठाकुर ने लगाया गंभीर आरोप, आधे हिंदुस्तान पर वक्फ बोर्ड का कब्जा

हमारा स्वराज ▶ इंदौर

वक्फ बोर्ड के मामले में भाजपा की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देशभरों को इस मुद्दे पर डटकर खड़े रहना चाहिए। भाजपा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और इंदौर जिले के महत्वपूर्ण विधायक उषा ठाकुर ने इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बयान दिया। ठाकुर ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि आधे हिंदुस्तान पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है।

उषा ठाकुर ने संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सभी देश भक्तों को इस मुद्दे पर डट कर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि



हजारों संविधान से चलने वाला देश है और संविधान हमारी आत्मा है। इसके विरुद्ध कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

### गौदा वक्फ कानून में न अपील न दलील

उषा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ संबंधी मौजूदा कानून ऐसा है कि जहां न कोई अपील है और न ही कोई दलील। बिना कानूनी प्रक्रिया के जमीनों पर दावा किया जाता है। उषा ठाकुर के अनुसार, वक्फ बोर्ड बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है और इसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बिना प्रमाण या दस्तावेजों के समय के साथ इस तरह के दावे किए गए

हैं, जिससे लोगों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जो भारतीय संविधान के अनुसार प्रमाणित दस्तावेज रखते हैं, उन्हें उनकी संपत्तियों का अधिकार मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का पालन हर नागरिक और संस्था के लिए अनिवार्य है, और किसी भी अकारण दावे को निरस्त किया जाना चाहिए।

### बयानों से घबराते रहती हैं उषा ठाकुर

विधायक उषा ठाकुर इससे पहले कई बार विवादाित बयान दे चुकी हैं। वे गरबा साड़ियों, भारत पाकिस्तान विवाद और धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ कई बार बयान दे चुकी हैं। उनके बयानों की वजह से वे अक्सर चर्चा में रहती हैं।

## सुभाष कर्णिक का निधन सादगी और हौसले की मिसाल थे पहलवान

हमारा स्वराज ▶ इंदौर

इंदौर के कुश्ती जगत के महारथी और अभ्यास मंडल के अग्रणी कार्यकर्ता सुभाष रंगनाथ कर्णिक का मंगलवार रात निधन हो गया। वे अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक के पिताजी थे। स्व. कर्णिक के साथी अभ्यास मंडल के शिवाजी मोहित ने बताया कि हमारे सबसे प्रिय सुभाष कर्णिक पहलवान का स्वर्गवास पूरे शहर के लिए बड़ी शक्ति है। सुभाष कर्णिक सादगी, ईमानदारी और चारबाजी की मिसाल थे। उन्होंने कॉलेज से लेकर आज तक सब निस्वार्थ सेवा भाव से काम किया। वे



अभ्यास मंडल के आधार स्तंभ, नर्मदा अंदोलन के मजबूत आधार, कुश्ती और कबड्डी के श्रेष्ठ खिलाड़ी जगो और जगोओ का नारा बुलंद करने वाले थे। मोहित ने बताया कि सुभाष कर्णिक ने अभ्यास मंडल के माध्यम से पर्यावरण, शहर और इंदौर में नर्मदा लाने जैसे कई बड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा की। जनता के हितों के लिए वे हमेशा आगे रहे। उनके कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहे। स्व. कर्णिक की अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 11 बजे 23 राजकी बाटिका चंडला नगर इंदौर स्थित निवास से निकली। अंतिम संस्कार रामबाग मुक्तिघाम पर किया गया।

## कंटेनर से कार चुरा कर ले गया ड्राइवर, बायपास पर कंटेनर छोड़ गया

हमारा स्वराज ▶ इंदौर

तेजाजी नगर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइजर ने ड्राइवर पर अमानत में खानाघर का कंटेनर चुराया है। पाँड़ित ने बताया कि दिल्ली से भारत कंपनी की नई कारों को डिलीवरी मुंबई में होना थी। कंटेनर ड्राइवर इंदौर बाइपास पर अपना मोबाइल बंद कर

कंटेनर में से कार लेकर फरार हो गया। तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक दिल्ली के करोड़ रोड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट गुडवांस के सुपरवाइजर चांसोराम पुत्र केशर राम निवासी खुबा को दाणा रजौत पुरा राजस्थान में कंपनी के ड्राइवर रिजवान पुत्र अजय निवासी गावडी जूहेडा, भरतपुर राजस्थान के खिलाफ केस दर्ज

कराया है। रिजवान 6 सितंबर की रात 11 बजे नावता भुंडला बाइपास रिज पर कंटेनर छोड़कर अंदर से विपट ड्राइवर कार लेकर भाग गया। चांसोराम ने बताया कि उन्होंने कंटेनर में मानेर गुडवांस से मालत कंपनी की 5 कारें लोड की थीं। जिनको डिलीवरी सिमरन मोटर्स मुंबई पर होना थी। 6 सितंबर को उनके ट्रैकिंग मैनेजर ने देखा

कि उनका कंटेनर तेजाजी नगर इलाके में सिल्वर सिंग से रालामंडल के बीच काफी समय से खड़ा है। उसने ड्राइवर के दो नंबरों पर कॉल किया, तो दोनों नंबर बंद आने लगे। तब इंदौर को कंपनी के ड्राइवर को कॉल कर मौके पर भेजा। जब वह मौके पर पहुंचा तो गाड़ी का लॉक खुला था। उसमें विपट कार नहीं थी।

## अमेरिका भी खजराना गणेश के लड्डू, निःशुल्क भोजन और स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित, दिया सम्मान

हमारा स्वराज ▶ इंदौर

इंदौर के प्रतिष्ठित खजराना गणेश मंदिर को अपनी उत्कृष्ट सेवा और प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अमेरिकन क्वालिटी काउंसिल (अक्ट), यूएसए के आधिकारिक सदस्य डॉ. राजीव श्रीवास्तव, डॉ. तिथि भूस्ला एवं अजय कुमार तिवारी ने मंदिर को उच्च गुणवत्ता की सेवाओं और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। खजराना गणेश मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर द्वारा संचालित अन्नक्षेत्र में हर दिन हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही, मंदिर थैलेसीमिया रोगियों के लिए निःशुल्क दवाइयों भी प्रदान करता है, जिससे मरीजों को इस गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा, मंदिर का लड्डू प्रसाद दुकान भी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जहां भक्तों को उच्च गुणवत्ता का प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के कारण, खजराना गणेश मंदिर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमेरिकन क्वालिटी काउंसिल द्वारा यह प्रमाण पत्र मंदिर के समर्पित प्रयासों और समाज सेवा में उसकी भूमिका को वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता दिलाती है। यह उपलब्धि मंदिर के लिए गर्व का विषय है और मंदिर प्रशासन के उत्कृष्ट प्रबंधन का प्रमाण है।



# वार्ड 83 में हुए उपचुनाव में 41.32 प्रतिशत मतदान 13 सितंबर को आएगा परिणाम



हमारा स्वराज ▶ इंदौर

इंदौर में नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 के रिक्त पार्षद पद के लिए बुधवार को उप चुनाव कराया गया। क्षेत्र के 21 हजार 731 मतदाताओं में से 8979 मतदाताओं ने अपने मतधिकार का उपयोग किया। शाम पांच बजे तक 41.32 प्रतिशत ही मतदान हुआ। अब 13 सितंबर को छह उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। यह उपचुनाव भाजपा पार्षद कमल लड्डू के निधन के कारण कराया गया।

सुबह सात बजे से शुरू हुआ यह मतदान शाम पांच बजे तक चला। मतगणना 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने चुनाव से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया था। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है।

### वर्किंग डे होने से मतदान घीना

मतदान के लिए कुल 31 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग करने के लिए प्रसिद्ध मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मंगलवार शाम को ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी केंद्रों पर वोटिंग हुई लेकिन बुधवार को अवरुद्ध नहीं होने के कारण वोटिंग बहुत ही धीमी गति से चली। मतदान बढ़ाने की अपील, फिर भी कम वोटिंग राजनीतिक प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा मतदान बढ़ाने के लिए लगाए गए अपील की गई थी, इसके बावजूद मतदान कम रहा। सोशल मीडिया के साथ ही गलतियों में प्रतिकर भी कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जनता से अपील की। त्योहारी सीजन होने से भी मतदान घीना रहा और लोग घरों से नहीं निकले।

### इन उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय होगा

वार्ड 83 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी, कांग्रेस के उम्मीदवारों (निर्दलीय) संजय मालवीय, भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र राठौर और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा साहनी के साथ ही योगेंद्र मोर्य और विनोद सिंह सूर्यवंशी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। बता दें, आप पार्टी के पास जैन ने नामांकन वापस ले लिया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन में निर्वाक, निराश, इतरदली एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक संध्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तीन-तीन सेक्टर ऑफिसर और कार्यापालक मॉनिटरिंग भी नियुक्त किए गए। मतदान के पश्चात नेहरू स्टेडियम में ही बसे स्टॉन रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच वीसिएप मशीनें रखी गईं।

Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

## LUCENT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74110MP2010PLC023011  
 Registered Office: Second Floor, 448-D, Scheme No. 51, Sangam Nagar, Indore, Madhya Pradesh, 452006  
 Tel. No: 8200927566 | E-Mail ID: sylphedu@gmail.com | Website: www.lucentindustries.com

Open Offer for Acquisition of 39,00,000 Equity Shares from Shareholders of Lucent Industries by Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3).

This Post Offer Advertisement is being issued by Wealth Mine Networks Private Limited, on behalf of Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as Acquirers), in connection with the offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on 17<sup>th</sup> May, 2024 in the Financial Express- English (All Editions), Jansatta - Hindi, Pratibha and Hamara Swara) newspapers.

Sr. No.	Particulars	Details	
1	Name of the Target Company:	Lucent Industries Limited	
2	Name of the Acquirer(s) and PAC	Mr. Kunal H. Kothari (Acquirer 1), Mrs. Prachi (Acquirer 2) and Mr. Tejas K. Rathod (Acquirer 3) (hereinafter collectively referred to as Acquirers)	
3	Name of the Manager to the Offer:	Wealth Mine Networks Private Limited	
4	Name of the Registrar to the Offer:	Satellite Corporate Services Private Limited	
<b>Offer Details:</b>			
5	a. Date of Opening of the Offer:	22 <sup>nd</sup> August, 2024	
	b. Date of Closure of the Offer:	04 <sup>th</sup> September, 2024	
6	Date of Payment of Consideration:	Not Applicable as none of the shareholders of the Target Company has tendered their shares	
<b>Details of Acquisition</b>			
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	18.25/-	18.25/-
7.2	Aggregate number of shares tendered	0	0
7.3	Aggregate number of shares accepted	0	0
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	₹ 71,17,50,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)	₹ 71,17,50,000/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Only)
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public announcement (No. & %)	NIL	NIL
7.6	Shares Acquired by way of Agreements		
	• Number	• 1,01,41,560	• 1,01,41,560
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 67.61%	• 67.61%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer		
	• Number	• 0	• 0
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 0%	• 0%
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement		
	• Number of shares acquired	• 0	• 0
	• Price of the shares acquired	• -	• -
	• % of the shares acquired	• 0%	• 0%
7.9	Post offer shareholding of Acquirer		
	• Number	• 1,01,41,560	• 1,01,41,560
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital Pre & Post offer shareholding of the Public	• 67.61%	• 67.61%
7.10	Post offer shareholding of the Public		
	• Number	• 1,01,41,560	• 1,01,41,560
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	• 67.61%	• 67.61%

8. The Acquirer along with its Directors and PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the Target Company.

Issued by:  
**WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED** (CIN: U33000GJ1995PTC025328)  
 Registered Office: 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jammarg, Gujarat-361001.  
 Contact Person: Mr. JAY TRIVEDI  
 Tel No: + 772867143 | Email: wealthminetworks@gmail.com  
 Investor Grievance ID: wealthminetworks@gmail.com  
 SEBI Reg. No.: INM00013077

On behalf of:

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Kunal Kothari Acquire-1	Mrs. Prachi Acquire-2	Tejas K. Rathod Acquire-3

Place: Mumbai  
 Date: 10/09/2024